



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1773]
No. 1773]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2008/अग्राहायण 27, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2008/AGRAHAYANA 27, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2926(अ).—यतः मै. गोल्डेन टावर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 8 सेक्टर-144, नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 8 सेक्टर-144, नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 3 सितम्बर, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 8 सेक्टर-144, नोएडा में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. फा. 1/237/2007-एसईजेड]

आर. गोपालन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.O. 2926(E).—Whereas M/s. Golden Tower Infotech Private Limited has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. 8, Sector-144, Noida, in the State of Uttar Pradesh.

And, whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. 8, Sector-144, Noida, in the State of Uttar Pradesh on 3rd September, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the land measuring ten hectares comprising at Plot No. 8, Sector-144, Noida, in the State of Uttar Pradesh as a Special Economic Zone.

[No. F. 1/237/2007-SEZ]

R. GOPALAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2927(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. गोल्डेन टावर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 8 सेक्टर-144, नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- | | |
|---|------------------|
| 1 विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त | —अध्यक्ष, पदेन |
| 2 निदेशक अथवा उप सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा | —सदस्य, पदेन |
| 3 क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली | —सदस्य, पदेन |
| 4 हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क आयुक्त, मुम्बई या उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | —सदस्य, पदेन |
| 5 विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | —सदस्य, पदेन |
| 6 निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभार, भारत सरकार | —सदस्य, पदेन |
| 7 संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/निगम, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक | —सदस्य, पदेन |
| 8 सचिव (उद्योग), उत्तर प्रदेश सरकार | —सदस्य, पदेन |
| 9 मै. गोल्डेन टावर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि | —विशेष आमंत्रिती |

[सं. फा. 1/237/2007-एसईजेड]

आर. गोपालन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.O. 2927(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for information technology and information technology enabled services Special Economic Zone at

Plot No. 8, Sector-144, Noida, Uttar Pradesh developed by M/s. Golden Tower Infratech Private Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Development Commissioner of the Special Economic Zone | —Chairperson, Ex-Officio |
| 2 Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India | —Member, Ex-Officio |
| 3 Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Delhi | —Member, Ex-Officio |
| 4 Commissioner of Customs Airport, Delhi or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | —Member, Ex-Officio |
| 5 Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | —Member, Ex-Officio |
| 6 Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India | —Member, Ex-Officio |
| 7 Chief Executive Officer/Managing Director of the Concerned Industrial Development Authority/Corporation, Government of Uttar Pradesh | —Member, Ex-Officio |
| 8 Secretary (Industry), Government of Uttar Pradesh | —Member, Ex-Officio |
| 9 Representative of M/s. Golden Tower Infratech Pvt. Ltd. (Developer) | —Special Invitee |

[No. F. 1/237/2007-SEZ]

R. GOPALAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2928(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से मै. गोल्डेन टावर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में प्लॉट सं. 8 सेक्टर-144, नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट, विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[सं. फा. 1/237/2007-एसईजेड]

आर. गोपालन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.O. 2928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 18th day of December, 2008 as the date from which the information technology and information technology enabled services Special Economic Zone at Plot no. 8, Sector-144, Noida, Uttar Pradesh developed by M/s. Golden Tower Infratech Pvt. Ltd. shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[No. F. 1/237/2007-SEZ]

R. GOPALAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2929(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नोएडा को निम्नलिखित तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है—

तालिका

क्र. सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	प्रकार	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	मै. गोल्डेन टावर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट सं. 8 सेक्टर-144, नोएडा उत्तर प्रदेश	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं	10

2. विकास आयुक्त के रूप में कार्यों का निष्पादन करने के लिए निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नोएडा को केन्द्र सरकार, वाणिज्य विभाग तथा विशेष आर्थिक जोन अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना होगा। वह वाणिज्य विभाग तथा विशेष आर्थिक जोन अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित आवधिक रिपोर्टें भी भेजेंगे। वह विकास आयुक्त के रूप में की गई सभी कार्यवाहियों के लिए वाणिज्य विभाग

के प्रति जवाबदेह होंगे। तथापि, पदधारी की छुट्टी, स्थानांतरण, तैनाती आदि जैसे वैयक्तिक मामले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा शासित होंगे।

[सं. फा. 1/237/2007-एसईजेड]

आर. गोपालन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.O. 2929(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005, the Central Government hereby appoints Director, Software Technology Parks of India, Noida to be the Development Commissioner of the Special Economic Zone, as enumerated in the Table below :—

TABLE

S. No.	Name of the Developer	Location	Type	Area (in hectares)
1.	Golden Tower Infratech Pvt. Ltd.	Plot No. 8, Sector-144, Noida, Uttar Pradesh	Information Technology/Information Technology enabled services	10 hecates

2. For discharge of the functions as Development Commissioner, Director, Software Technology Parks of India, Noida, shall abide by the instructions of the Central Government, Department of Commerce and the Board of Approval on Special Economic Zones, issued from time to time. He shall also be sending periodic reports, as prescribed by the Department of Commerce and the Board of Approval on Special Economic Zones. He shall be responsible to the Department of Commerce for all the actions taken as Development Commissioner. However, the personal matters like leave, transfer, posting etc. of the incumbent shall be governed by the Department of Information Technology and Software Technology Park of India, as the case may be.

[No. F. 1/237/2007-SEZ]

R. GOPALAN, Addl. Secy.